

Transliteration–Telugu

Transliteration as per Modified Harvard-Kyoto (HK) Convention
(including Telugu letters – Short e, Short o) -

a A i I u U
R RR IR IRR
e E ai o O au M (H or :)

(e – short | E – Long | o – short | O – Long)

k kh g gh n/G
c ch j jh n/J (jn – as in jnAna)
T Th D Dh N
t th d dh n
p ph b bh m
y r l L v
S sh s h

SrI rAma SrI rAma-SahAna

In the kRti ‘SrI rAma SrI rAma’ – rAga SahAna, SrI tyAgarAja pleads
with the Lord to protect him.

- P SrI rAma SrI rAma SrI manO-haramA
- C1 ElarA nI daya int(ai)na ¹rAd(a)yA (SrI)
- C2 cAladA sadaya ²sAmi ³tALad(a)yA (SrI)
- C3 ippuDE lEd(a)Ta ikanu brOtuv(a)Ta (SrI)
- C4 eppuDO kaTa kaTa ika dayALuv(a)Ta (SrI)
- C5 inka(y)I ⁴marmamA idi nIku dharmamA (SrI)
- C6 pankaja vadanamA bAguga jUDumA (SrI)
- C7 E janma pApamO evvari SApamO (SrI)
- C8 E nATi kOpamO neriya nA pApamO (SrI)
- C9 ennALL(I) dInata idi nIku yOgyatA (SrI)
- C10 paliki bonkav(a)Ta parama SAntuDav(a)Ta (SrI)
- C11 bhakta kAntuD(a)Ta padma nEtruD(a)Ta (SrI)
- C12 sarvamu nIv(a)Ta satya rUpuD(a)Ta (SrI)
- C13 rAga virahita tyAgarAja nuta (SrI)

Gist

O Lord SrI rAma! O Lord who has stolen the heart of lakshmi!
O Kind hearted!

O Lotus Faced!
O Lord bereft of attachments! O Lord praised by this tyAgarAja!

You are called Merciful Lord;
You are stated not to fail in Your word.
You are called a 'very tranquil person'.
You are called 'husband of the devotees'.
You are called 'Lotus Eyed'.
Everything is stated to be You.
You are called 'Embodiment of truth'.

Why even a little of Your compassion wouldn't come?
Isn't it enough? It is not possible to bear.
You say You wouldn't show mercy now itself and You would protect later
on; Alas! I do not know, when.
Why this secrecy even now? Is it fair for You?
Please look at me well.
I know not this to be the sin committed by me in which birth; or, I know
not whose curse it is.
I know not this to be anger of which period; or, is it due to much of my
sins?
How long is this pitiable state? Does it behove You?

Word-by-word Meaning

P O Lord SrI rAma! SrI rAma! O Lord who has stolen (haramA) the heart
(manas) (literally mind) (manO-haramA) of lakshmi (SrI)!

C1 O Lord (ayA)! Why (ElarA) even (aina) a little (inta) (intaina) of Your
(nI) compassion (daya) wouldn't come (rAdu) (rAdayA)?
O Lord SrI rAma! SrI rAma! O Lord who has stolen the heart of lakshmi!

C2 O Kind hearted (sadayA)! Isn't it enough (cAladA)? O Lord (sAmi)! O
Lord (ayA)! It is not possible to bear (tAladu) (tAladayA);
O Lord SrI rAma! SrI rAma! O Lord who has stolen the heart of lakshmi!

C3 & 4 You say (aTa) You wouldn't (lEdu) (lEdaTa) show mercy now itself
(ippuDE); You say (aTa) You would protect (brOtuvu) (brOtuvaTa) later on
(ikanu);
Alas (kaTa kaTa)! I do not know, when (eppuDO); yet (ika) You are called
(aTa) Merciful Lord (dayALuvu) (dayALuvaTa);
O Lord SrI rAma! SrI rAma! O Lord who has stolen the heart of lakshmi!

C5 Why this (I) secrecy (marmamA) even now (inka) (inkayI)? Is it (idi) fair
(dharmamA) for You (nIku)?
O Lord SrI rAma! SrI rAma! O Lord who has stolen the heart of lakshmi!

C6 O Lotus (pankaja) Faced (vadanamA)! Please look (jUDumA) at me well
(bAguga);
O Lord SrI rAma! SrI rAma! O Lord who has stolen the heart of lakshmi!

C7 I know not this to be the sin (pApamO) committed by me in which (E)
birth (janma); or, I know not whose (evvari) curse (SApamO) it is.
O Lord SrI rAma! SrI rAma! O Lord who has stolen the heart of lakshmi!

C8 I know not this to be anger (kOpamO) of which (E) period (nATi); or, is it
due to much (neriya) (literally full) of my (nA) sins (pApamO)?

O Lord SrI rAma! SrI rAma! O Lord who has stolen the heart of lakshmi!

C9 How long (ennALLu) is this (I) (ennALLI) pitiable state (dInata)? Does it (idi) behove (yOgyatA) You (nIku)?

O Lord SrI rAma! SrI rAma! O Lord who has stolen the heart of lakshmi!

C10 You are stated (aTa) not to fail (bonkavu) (bonkavaTa) in Your word (paliki) (literally having uttered); You are called (aTa) a 'very (parama) tranquil person' (SAntuDavu) (SAntuDavaTa);

O Lord SrI rAma! SrI rAma! O Lord who has stolen the heart of lakshmi!

C11 You are called (aTa) 'husband (kAntuDu) (kAntuDaTa) of the devotees' (bhakta); You are called (aTa) 'Lotus (padma) Eyed' (nEtruDu) (nEtruDaTa);

O Lord SrI rAma! SrI rAma! O Lord who has stolen the heart of lakshmi!

C12 Everything (sarvamu) is stated to be (aTa) You (nIvu) (nIvaTa); You are called (aTa) 'Embodiment (rUpuDu) (rUpuDaTa) of truth' (satya);

O Lord SrI rAma! SrI rAma! O Lord who has stolen the heart of lakshmi!

C13 O Lord bereft (virahita) of attachments (rAga)! O Lord praised (nuta) by this tyAgarAja!

O Lord SrI rAma! SrI rAma! O Lord who has stolen the heart of lakshmi!

Notes –

Variations –

¹ – rAdayA – rAdaya.

² – sAmi – svAmi.

³ – tALadayA – tALadaya.

⁴ – marmamA – karmamA.

General – caraNas 4 and 5 are interchanged in some books. From the flow of the kRti, the order given herein seems to be appropriate.

References –

Comments -

Devanagari

प. श्री राम श्री राम श्री मनो-हरमा

च1. एलरा नी दय इ(न्तै)न रा(द)या (श्री)

च2. चालदा सदय सामि ताळ(द)या (श्री)

च3. इप्पुडे ले(द)ट इकनु ब्रोतु(व)ट (श्री)

च4. एप्पुडो कटकट इक दयाळु(व)ट (श्री)

च5. इंक(यी) मर्ममा इदि नीकु धर्ममा (श्री)

च6. पंकज वदनमा बागुग जूडुमा (श्री)

- చ7. ఎ జన్మ పాపమో ఎవ్వరి శాపమో (శ్రీ)
 చ8. ఎ నాటి కోపమో నెరియ నా పాపమో (శ్రీ)
 చ9. ఎన్నా(ఱ్ఱి) దీనత ఇది నీకు యోగ్యతా (శ్రీ)
 చ10. పలికి బొక(వ)ట పరమ శాన్తుడ(వ)ట (శ్రీ)
 చ11. భక్త కాన్తు(డ)ట పద్మ నేత్రు(డ)ట (శ్రీ)
 చ12. సర్వము నీ(వ)ట సత్య రూపు(డ)ట (శ్రీ)
 చ13. రాగ విరహిత త్యాగరాజ నుత (శ్రీ)

English with Special Characters

- pa. śrī rāma śrī rāma śrī manō-haramā
 ca1. ēlarā nī daya i(ntai)na rā(da)yā (śrī)
 ca2. cāladā sadaya sāmi tāḷa(da)yā (śrī)
 ca3. ippuḍē lē(da)ṭa ikanu brōtu(va)ṭa (śrī)
 ca4. eppuḍō kaṭakaṭa ika dayāḷu(va)ṭa (śrī)
 ca5. iṃka(yī) marmamā idi nīku dharmamā (śrī)
 ca6. paṅkaja vadanamā bāguga jūḍumā (śrī)
 ca7. ē janma pāpamō evvari śāpamō (śrī)
 ca8. ē nāṭi kōpamō neriya nā pāpamō (śrī)
 ca9. ennā(ḷī) dīnata idi nīku yōgyatā (śrī)
 ca10. paliki boṅka(va)ṭa parama śāntuḍa(va)ṭa (śrī)
 ca11. bhakta kāntu(ḍa)ṭa padma nētru(ḍa)ṭa (śrī)
 ca12. sarvamu nī(va)ṭa satya rūpu(ḍa)ṭa (śrī)
 ca13. rāga virahita tyāgarāja nuta (śrī)

Telugu

- ప. శ్రీ రామ శ్రీ రామ శ్రీ మనో-హరమా
 చ1. ఏలరా నీ దయ ఇ(న్తై)న రా(ద)యా (శ్రీ)
 చ2. చాలదా సదయ సామి తాళ(ద)యా (శ్రీ)
 చ3. ఇప్పుడే లే(ద)ట ఇకను బ్రోతు(వ)ట (శ్రీ)

- చ4. ఎప్పుడో కటకట ఇక దయాళు(వ)ట (శ్రీ)
 చ5. ఇంక(యీ) మర్మమా ఇది నీకు ధర్మమా (శ్రీ)
 చ6. పంకజ వదనమా బాగుగ జూడుమా (శ్రీ)
 చ7. ఏ జన్మ పాపమో ఎవ్వరి శాపమో (శ్రీ)
 చ8. ఏ నాటి కోపమో నెరియ నా పాపమో (శ్రీ)
 చ9. ఎన్నా(ళ్ళీ) దీనత ఇది నీకు యోగ్యతా (శ్రీ)
 చ10. పలికి బొంక(వ)ట పరమ శాస్త్రుడ(వ)ట (శ్రీ)
 చ11. భక్త కాస్తు(డ)ట పద్మ నేత్రు(డ)ట (శ్రీ)
 చ12. సర్వము నీ(వ)ట సత్య రూపు(డ)ట (శ్రీ)
 చ13. రాగ విరహిత త్యాగరాజ సుత (శ్రీ)

Tamil

- ప. ప్రి రామ ప్రి రామ ప్రి మణో-హరమా
 స1. యలరా నీ త³య ఇన్(తె)న రా(త³)యా (ప్రి)
 స2. శాలతా³ సత³య సామి తాన(త³)యా (ప్రి)
 స3. ఇప్పడే³ లే(త³)డ ఇకను ప్రోతు(వ)డ (ప్రి)
 స4. ఁప్పడే³ కడకడ ఇక తయాన(వ)డ (ప్రి)
 స5. ఇంగ(యీ) మమ్మా ఇతి³ నీకు త⁴మ్మా (ప్రి)
 స6. పంగళ వత³నమా పా³కు³క³ జు³దు³మా (ప్రి)
 స7. య జన్మ పాపమో ఁవ్వరి **సా**పమో (ప్రి)
 స8. య నాడి కౌపమో నెరియ నా పాపమో (ప్రి)
 స9. ఁన్నా(ళ్ళీ) తీ³నత ఇతి³ నీకు యోక్³యతా (ప్రి)
 స10. పలికి పొ³ంగ(వ)డ పరమ **సా**న్తుడ³(వ)డ (ప్రి)
 స11. ప⁴క్త కాన్తు(డ³)డ పత్³మ నేత్రు(డ³)డ (ప్రి)
 స12. సర్వము నీ(వ)డ సత్య రూపు(డ³)డ (ప్రి)
 స13. రాక³ విరహిత త్యాకరాజ సుత (ప్రి)

ఇరామా! ఇరామా! ఇలక్కుమి మనం కవర్వోనే!

1. యన్యయా, ఁనతు కరుణై శిరితాకిలమ్ వారాతయ్యా?
2. పోతాతా, కనివుడైయోనే! శామి, తానాతయ్యా;
- 3 & 4. ఇప్పోతే ఇల్లయ్యామ్; ఇనిమేల్ కాప్పాయ్యామ్;
 ఁప్పోత్తో, యకో! ఆయినుమ్ (నీ) తయానామ్;
5. ఇనియుమ్ ఇన్త మరమ్మా? ఇ³తునక్కు తరమ్మా?
6. తామరై వతనత్తోనే! నన్కు (ఁన్నై) నోక్కువాయ్;
7. ఁప్పిరివియిన్ పావమో? ఁవరుడైయ శాపమో?

8. என்றಾಯ ಕೋಪಮೋ? ಅಲ್ಲಲತ್ತು ಮಿಕ್ಕು ಂನತ್ತು ಪಾವಮೋ?
9. ಂತ್ತನು ನಾಁ ಂಂತ ಇಢಿವು? ಇಃತ್ತುನಕ್ಕು ತಕ್ಕುಮಾ?
10. ಸೂಲ್ ತವುರೂಡ್ಡಾಯಾಢ್; ಮಿಕ್ಕು ಅಢುತಿಯಾನವನಾಢ್;
11. ತೂಂಡರಕ್ಕಲಿನ್ ಕಣವನಾಢ್; ತಾಢರೂಕ್ ಕಣ್ಣನಾಢ್;
12. ಯಾವುಢ್ ನಿಯಾಢ್; ಁಣ್ಢುಢಿಯಿನ್ ಁಠುವಾಢ್;
13. ಪಠ್ಠಠ್ಠವನು! ತಿಯಾಕರಾಸನಾಲ್ ಪೂಠ್ಠಪ್ ಪುಠ್ಠೂನು!
ಇರಾಢಾ! ಇರಾಢಾ! ಇಲಕ್ಕುಢಿ ಢನಢ್ ಕವರ್ವೂನು!

Kannada

- ಪ. ಶ್ರೀ ರಾಢು ಶ್ರೀ ರಾಢು ಶ್ರೀ ಢನೂ-ಹರಢಾ
- ಚಗ. ಁಲರಾ ನೀ ದಯ ಇ(ನೈ)ನ ರಾ(ದ)ಯಾ (ಶ್ರೀ)
- ಚಁ. ಚಾಲದಾ ಸದಯ ಸಾಢಿ ತಾಳ(ದ)ಯಾ (ಶ್ರೀ)
- ಚಃ. ಇಪ್ಪುಡೇ ಲೀ(ದ)ಟ ಇಕನು ಬೂೂತು(ವ)ಟ (ಶ್ರೀ)
- ಚಳ. ಁಪ್ಪುಡೂ ಕಟಕಟ ಇಕ ದಯಾಳು(ವ)ಟ (ಶ್ರೀ)
- ಚಞ. ಇಂಕ(ಯೀ) ಢರೂಢಾ ಇದಿ ನೀಕು ಧರೂಢಾ (ಶ್ರೀ)
- ಚಃ. ಪಂಕಜ ವದನಢಾ ಬಾಗುಗ ಜೂಡುಢಾ (ಶ್ರೀ)
- ಚಁ. ಁ ಜನ್ಢ ಪಾಪಢೂ ಁವ್ವರಿ ಶಾಪಢೂ (ಶ್ರೀ)
- ಚಲ. ಁ ನಾಟಿ ಕೂಪಢೂ ನೆರಿಯ ನಾ ಪಾಪಢೂ (ಶ್ರೀ)
- ಚಃ. ಁನ್ನಾ(ಳ್ಳೀ) ದೀನತ ಇದಿ ನೀಕು ಯೂಗ್ಯತಾ (ಶ್ರೀ)
- ಚಗಂ. ಪಲಿಕಿ ಬೂಂಕ(ವ)ಟ ಪರಢು ಶಾನ್ತುಡ(ವ)ಟ (ಶ್ರೀ)
- ಚಗಗ. ಭಕ್ತ ಕಾನ್ತು(ಡ)ಟ ಪದ್ಯ ನೇತು(ಡ)ಟ (ಶ್ರೀ)
- ಚಗಁ. ಸರ್ದಢು ನೀ(ವ)ಟ ಸತ್ಯ ರೂಪು(ಡ)ಟ (ಶ್ರೀ)
- ಚಗಃ. ರಾಗ ವರಹಿತ ತ್ಯಾಗರಾಜ ನುತ (ಶ್ರೀ)

Malayalam

- ಁ. ಂಲಿ ರಾಢ ಂಲಿ ರಾಢ ಂಲಿ ಢನೂ-ಹರಢಾ
- ಁ1. ಁಲರಾ ಗೀ ಡಯ ಇ(ನುನು)ಗ ರಾ(ದ)ಯಾ (ಂಲಿ)
- ಁ2. ಁಲರಾ ಸರಯ ಸಾಢಿ ತಾಳ(ದ)ಯಾ (ಂಲಿ)
- ಁ3. ಇಪ್ಪುಡು ಲು(ದ)ಃ ಇಕನು ಂಬಾತು(ವ)ಃ (ಂಲಿ)
- ಁ4. ಁಪ್ಪುಡು ಕಟಕಟ ಇಕ ಡಯಾಳು(ವ)ಃ (ಂಲಿ)

- ച5. ഇംക(യീ) മർമമാ ഇദി നീകു ധർമമാ (ശ്രീ)
ച6. പംകജ വദനമാ ബാഗുഗ ജുഡുമാ (ശ്രീ)
ച7. ഏ ജന്മ പാപമോ എവൂരി ശാപമോ (ശ്രീ)
ച8. ഏ നാടി കോപമോ നെരിയ നാ പാപമോ (ശ്രീ)
ച9. എന്നാ(ളളീ) ദീനത ഇദി നീകു യോഗ്യതാ (ശ്രീ)
ച10. പലികി ബൊംക(വ)ട പരമ ശാന്തുഡ(വ)ട (ശ്രീ)
ച11. ഭക്ത കാന്തു(ഡ)ട പർമ നേത്രു(ഡ)ട (ശ്രീ)
ച12. സരമു നീ(വ)ട സത്യ രൂപു(ഡ)ട (ശ്രീ)
ച13. രാഗ വിരഹിത ത്യാഗരാജ നൂത (ശ്രീ)

Assamese

- പ. শ্রী বাম শ্রী বাম শ্রী মনো-হৰমা
চ১. এলৰা নী দয় ই(স্তৈ)ন বা(দ)য়া (শ্রী)
চ২. চালদা সদয় সামি তাল(দ)য়া (শ্রী)
চ৩. ইপ্পুডে লে(দ)ট ইকনু রোতু(র)ট (শ্রী)
চ৪. এপ্পুডো কটকট ইক দয়ালু(র)ট (শ্রী)
চ৫. ইংক(য়ী) মৰ্মমা ইদি নীকু ধৰ্মমা (শ্রী)
চ৬. পংকজ রদনমা বাগুগ জুডুমা (শ্রী)
চ৭. এ জন্ম পাপমো এরুৰি শাপমো (শ্রী)
চ৮. এ নাটি কোপমো নেৰিয় না পাপমো (শ্রী)
চ৯. এনা(ল্লী) দীনত ইদি নীকু যোগ্যতা (শ্রী)
চ১০. পলিকি বোংক(র)ট পৰম শান্তুড(র)ট (শ্রী)
চ১১. ভক্ত কান্তু(ড)ট পদ্ম নেত্রু(ড)ট (শ্রী)
চ১২. সৰমু নী(র)ট সত্য রূপু(ড)ট (শ্রী)
চ১৩. বাগ বিৰহিত অগৰাজ নুত (শ্রী)

Bengali

- প. শ্রী রাম শ্রী রাম শ্রী মনো-হরমা
চ১. এলরা নী দয় ই(স্তৈ)ন রা(দ)য়া (শ্রী)
চ২. চালদা সদয় সামি তাল(দ)য়া (শ্রী)
চ৩. ইপ্পুডে লে(দ)ট ইকনু রোতু(ব)ট (শ্রী)

- ଚ୪. ଏମ୍ପୁଡ଼ୋ କଟକଟ ଇକ ଦୟାଲୁ(ବ)ଟ (ଶ୍ରୀ)
 ଚ୫. ଇଂକ(ୟୀ) ମର୍ମମା ଇଦି ନୀକୁ ଧର୍ମମା (ଶ୍ରୀ)
 ଚ୬. ପଂକଜ ବଦନମା ବାଂଶୁଗ ଜୁଡୁମା (ଶ୍ରୀ)
 ଚ୭. ଏ ଜନ୍ମ ପାପମୋ ଏବରି ଶାପମୋ (ଶ୍ରୀ)
 ଚ୮. ଏ ନାଟି କୋପମୋ ନେରିୟ ନା ପାପମୋ (ଶ୍ରୀ)
 ଚ୯. ଏମ୍ମା(ଲ୍ଲୀ) ଦୀନତ ଇଦି ନୀକୁ ଯୋଗ୍ୟତା (ଶ୍ରୀ)
 ଚ୧୦. ପଲିକି ବୋଂକ(ବ)ଟ ପରମ ଶାନ୍ତୁଡ(ବ)ଟ (ଶ୍ରୀ)
 ଚ୧୧. ଡକ୍ତ କାନ୍ତୁ(ଡ)ଟ ପନ୍ନ ନେନ୍ଦ୍ର(ଡ)ଟ (ଶ୍ରୀ)
 ଚ୧୨. ସର୍ବମୁ ନୀ(ବ)ଟ ସତ୍ତ୍ୱ ରୂପୁ(ଡ)ଟ (ଶ୍ରୀ)
 ଚ୧୩. ରାଗ ବିରହିତ ଆଗରାଜ ନୁତ (ଶ୍ରୀ)

Gujarati

୫. ଶ୍ରୀ ରାମ ଶ୍ରୀ ରାମ ଶ୍ରୀ ମନୋ-ହରମା
 ୬. ଅଲେରା ନୀ ଦୟ ଇ(ନୈ)ନ ରା(ଦ)ଧା (ଶ୍ରୀ)
 ୭. ଆଲେଢା ସଦୟ ସାମି ତାଜ(ଦ)ଧା (ଶ୍ରୀ)
 ୮. ଇମ୍ପୁଡ଼େ ଲେ(ଦ)ଟ ଇକନ୍ତୁ ଓତୁ(ବ)ଟ (ଶ୍ରୀ)
 ୯. ଅମ୍ପୁଡ଼ୋ କଟକଟ ଇକ ଦୟାତୁ(ବ)ଟ (ଶ୍ରୀ)
 ୧୦. ଇକ(ଧୀ) ମର୍ମମା ଇଦି ନୀକୁ ଧର୍ମମା (ଶ୍ରୀ)
 ୧୧. ପଂକଜ ବଦନମା ବାଂଶୁଗ ଜୁଡୁମା (ଶ୍ରୀ)
 ୧୨. ଅ ଶ୍ମ ପାପମୋ ଅବ୍ବରି ଶାପମୋ (ଶ୍ରୀ)
 ୧୩. ଅ ନାଟି କୋପମୋ ନେରିୟ ନା ପାପମୋ (ଶ୍ରୀ)
 ୧୪. ଅମ୍ମା(ଞ୍ଜୀ) ଦୀନତ ଇଦି ନୀକୁ ଯୋଗ୍ୟତା (ଶ୍ରୀ)
 ୧୫. ପଲିକି ଓକ(ବ)ଟ ପରମ ଶାନ୍ତୁଡ(ବ)ଟ (ଶ୍ରୀ)
 ୧୬. ଡକ୍ତ କାନ୍ତୁ(ଡ)ଟ ପନ୍ନ ନେନ୍ଦ୍ର(ଡ)ଟ (ଶ୍ରୀ)
 ୧୭. ସର୍ବମୁ ନୀ(ବ)ଟ ସତ୍ତ୍ୱ ରୂପୁ(ଡ)ଟ (ଶ୍ରୀ)
 ୧୮. ରାଗ ବିରହିତ ଆଗରାଜ ନୁତ (ଶ୍ରୀ)

Oriya

- ପ. ଶ୍ରୀ ରାମ ଶ୍ରୀ ରାମ ଶ୍ରୀ ମନୋ-ହରମା
 ଚ୧. ଏଲେରା ନୀ ଦୟ ଇ(ନୈ)ନ ରା(ଦ)ଧା (ଶ୍ରୀ)

୧୭. ଚାଲିବା ସଦୟ ସାମି ତାଳି(ଦ)ୟା (ଶ୍ରୀ)
 ୧୮. ଇପ୍ପୁତେ ଲେ(ଦ)ଟ ଇକନୁ ବ୍ରୋତୁ(ଝ)ଟ (ଶ୍ରୀ)
 ୧୯. ଏପ୍ପୁତେ କଟକଟ ଇକ ଦୟାଲୁ(ଝ)ଟ (ଶ୍ରୀ)
 ୨୦. ଇଂକ(ୟ) ମର୍ମମା ଇଦି ନୀକୁ ଧର୍ମମା (ଶ୍ରୀ)
 ୨୧. ପଂକଜ ଝଦନମା ବାଗୁଗ ଜୁଡୁମା (ଶ୍ରୀ)
 ୨୨. ଏ ଜନ୍ମ ପାପମୋ ଏଝଝରି ଶାପମୋ (ଶ୍ରୀ)
 ୨୩. ଏ ନାଟି କୋପମୋ ନେରିୟ ନା ପାପମୋ (ଶ୍ରୀ)
 ୨୪. ଏନ୍ନା(ଲ୍ଲ) ଦୀନତ ଇଦି ନୀକୁ ଯୋଗ୍ୟତା (ଶ୍ରୀ)
 ୨୫. ପଲିକି ବୋକି(ଝ)ଟ ପରମ ଶାନ୍ତୁତ(ଝ)ଟ (ଶ୍ରୀ)
 ୨୬. ଭକ୍ତ କାନ୍ତୁ(ତ)ଟ ପଦ୍ମ ନେତୁ(ତ)ଟ (ଶ୍ରୀ)
 ୨୭. ସର୍ଝମୁ ନୀ(ଝ)ଟ ସତ୍ୟ ରୁପୁ(ତ)ଟ (ଶ୍ରୀ)
 ୨୮. ରାଗ ଝିରହିତ ତ୍ୟାଗରାଜ ନୁତ (ଶ୍ରୀ)

Punjabi

୧. ଶ୍ରୀ ରାମ ଶ୍ରୀ ରାମ ଶ୍ରୀ ମନେ-ହରମା
 ୨. ଥେଲଟା ନୀ ଦଜ ଇ(ନତ୍ତେ)ନ ଟା(ଦ)ୟା (ଶ୍ରୀ)
 ୩. ଚାଲଟା ସଦୟ ସାମି ତାଲ(ଦ)ୟା (ଶ୍ରୀ)
 ୪. ଇପ୍ପୁଡେ ଲେ(ଦ)ଟ ଇକନୁ ଖେତୁ(ବ)ଟ (ଶ୍ରୀ)
 ୫. ଇପ୍ପୁଡେ କଟକଟ ଇକ ଦୟାଲୁ(ବ)ଟ (ଶ୍ରୀ)
 ୬. ଇକି(ଜୀ) ମରମମା ଇଦି ନୀକୁ ଧରମମା (ଶ୍ରୀ)
 ୭. ପିଂକଜ ବଦନମା ବାଗୁଗ ଜୁଡୁମା (ଶ୍ରୀ)
 ୮. ଥେ ଜନମ ପାପମେ ଥେବିରି ଶାପମେ (ଶ୍ରୀ)
 ୯. ଥେ ନାଟି କୋପମେ ନେରିୟ ନା ପାପମେ (ଶ୍ରୀ)
 ୧୦. ଥେନା(ଲ୍ଲ) ଦୀନତ ଇଦି ନୀକୁ ଯୋଗ୍ୟତା (ଶ୍ରୀ)
 ୧୧. ପଲିକି ଖୋକ(ବ)ଟ ପରମ ଶାନ୍ତୁଡ(ବ)ଟ (ଶ୍ରୀ)
 ୧୨. ଭକତ କାନ୍ତୁ(ଡ)ଟ ପଦମ ନେତୁ(ଡ)ଟ (ଶ୍ରୀ)

ਚ੧੨. ਸਰੂਮ ਨੀ(ਵ)ਟ ਸਤ੍ਯ ਰੂਪ(ਡ)ਟ (ਸ਼ੀ)

ਚ੧੩. ਰਾਗ ਵਿਰਹਿਤ ਤਜਾਰਾਜ ਨੁਤ (ਸ਼ੀ)